



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 9, 2002/चैत्र 19, 1924

No. 166]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 9, 2002/CHAITRA 19, 1924

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2002

**सा.का.नि. 266(अ).**—केन्द्रीय सरकार मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानव अंग प्रतिरोपण नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानव अंग प्रतिरोपण नियम, 1995 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“परंतु हटाए गए नेत्रगोलक (आंख की पुतली) को निम्नलिखित तीन प्रक्रमों में परिरक्षित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(i) अल्पकालिक परिरक्षण ;

(ii) मध्यमकालिक परिरक्षण ;

(iii) दीर्घकालिक परिरक्षण,

और परिरक्षण के लिए उपयुक्त मीडिया का उपयोग किया जाएगा”।

3. उक्त नियमों के नियम 9 में,—

(क) “साधारण अपेक्षाएं” शीर्ष के अधीन क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“8. नेत्र विज्ञानी

9. कार्नियल सर्जन।”;

- (ख) “विभिन्न विभाग” शीर्ष के अधीन क्रम संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
- “18. नेत्र विज्ञान विभाग।”;
- (ग) “प्रतिरोपण कार्यक्रम दल” शीर्ष के अधीन क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
- “5. नेत्र दान परामर्शदाता/संताप परामर्शदाता।”;
- (घ) “आधारित उपस्कर” शीर्ष के अधीन विद्यमान प्रविष्टि को प्रविष्टि 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित प्रविष्टि 1 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
- “2. स्लिट लैम्प
3. परावर्तक सूक्ष्मदर्शी
4. शल्य क्रिया सूक्ष्मदर्शी।”;
- (ङ) “प्रतिरोपण कार्यक्रम के लिए अपेक्षित अतिरिक्त उपस्कर” शीर्ष के अधीन क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
- “7. आटोकलेव (आज्ञापक)
8. यू. वी. लैम्प } वांछनीय।”
9. लेमीनार फ्लो }

[फा. सं. एस. 12011/2/94-एम एस (पी.टी.)]

जवाहर ठाकुर, मुख्य लेखा नियंत्रक

पाद टिप्पण :—मूल नियम सा.का.नि. 51(अ), तारीख 4 फरवरी, 1995 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2002

**G.S.R. 266 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (42 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Transplantation of Human Organs Rules, 1995, namely :—

1. (1) These rules may be called the Transplantation of Human Organs (Amendment) Rules, 2002.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 5 of the Transplantation of Human Organs Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that the eye ball removed shall be preserved in the following three steps, namely :—

- (i) short-term preservation;
- (ii) medium-term preservation;
- (iii) long-term preservation,

and suitable media shall be used for preservation”.

3. In rule 9 of the said rules,—

- (a) under the heading “GENERAL REQUIREMENT”, after serial number 7 and the entry relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

- “8. Ophthalmologist
9. Corneal Surgeons.”;

- (b) under the heading **"VARIOUS DEPARTMENTS"**, after serial number 17 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :—

"18. Department of Ophthalmology.";

- (c) under the heading **"NON-TRANSPLANTATION PROGRAMME TEAM"**, after serial number 4 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :—

"5. Eye Donation Counsellor/Grief Counsellor.";

- (d) under the heading **"BASIC EQUIPMENT"**, the existing entry shall be numbered as entry 1 and after entry 1 as so numbered, the following entries shall be inserted, namely :—

"2. Slit Lamp

3. Specular Microscope

4. Operating Microscope.";

- (e) under the heading **ADDITIONAL EQUIPMENT REQUIRED FOR "TRANSPLANTATION PROGRAMME"**, after serial number 6 and the entry relating thereto the following serial numbers and entries shall be inserted namely :—

"7. Autoclave (mandatroy)

8 U V. Lamp

9. Laminor Flow

} Desirable".

[F. No. S. 12011/2/94-MS (PT)]

JAWAHAR THAKUR, Chief Controller of Accounts

**Foot Note :** The principal rules were published vide G.S.R. 51(E), dated the 4th February, 1995.

